



भारत का राजपत्र The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81]
No. 81]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1981/फाल्गुन 4, 1902
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1981/PHALGUNA 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1981

क्र. आ. 126 (अ)/18-कक/उ.वि.वि.अ./81.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 112 (अ)/कक/आई. डी. आर. ए./79, तारीख 26 फरवरी, 1979 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) । द्वारा ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छः महीने की अवधि के लिए अर्थात् 25 अगस्त, 1979 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक ग्रहण किया था और एन्ड्र्यू यूल् एण्ड कम्पनी लि. कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 476 (अ)/18-कक/उ.वि.वि.अ./79, तारीख 22 अगस्त, 1979 तथा सं. का. आ. 637 (अ)/18-

कक/उ वि.वि.अ./80, तारीख 22 अगस्त, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 25 फरवरी, 1981 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को एक वर्ष की अवधि के लिए एन्ड्र्यू यूल् एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र के अधीन बने रहना चाहिए ,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् तारीख 25 फरवरी, 1982 तक जिसमें यह दिन भी शामिल है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 5/14/78-सी.यू.सी.]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 23rd February, 1981

S.O. 126(E)/18AA/IDRA-81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Depart-

ment of Industrial Development) No. S.O. 112(E)|18AA|IDRA|79, dated 26th February, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto and inclusive of 25th August, 1979 and the Andrew Yule & Company Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 476(E)|18AA|IDRA|79, dated the 22nd August, 1979 and No. S.O. 637(E)|18AA|IDRA|80, dated the 23rd August, 1980, the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 25th February, 1981;

And whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Andrew Yule & Company Limited for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA on the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 25th February, 1982.

[F. No. 5(14)|78-CUS]

का. आ. 127(अ)/18एफ. बी./आई. डी. आर ए./81.— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशों सं. का. आ. 124(अ)/18 एफ. बी./आई. डी. आर. ए./79, तारीख 5 मार्च, 1979 तथा सं. का. आ. 130(अ)/18 एफ. बी./आई. डी. आर. ए./79, तारीख 3 मार्च, 1979 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेशों के जारी होने की तारीखों के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थानों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों, जिनका मसम ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लि., कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों, का प्रवर्तन 25 अगस्त, 1979 तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रौद्योगिक या उद्भूत होने वाली सभी अधिकार, विवेकाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व 25 अगस्त, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 477(अ) एफ. बी./आई. डी. आर.

ए./79, तारीख 22 अगस्त, 1979 तथा सं. का. आ. 638(अ)/18 एफ. बी./आई. डी. आर. ए./79, तारीख 23 अगस्त, 1980 द्वारा उक्त आदेशों की अवधि 25 फरवरी, 1981 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गयी थी ;

और केन्द्रीय सरकार इस बारे में संतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेशों की अवधि एक वर्ष के लिए अर्थात् 25 फरवरी, 1982 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, (1951 का 65) की धारा 18ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेशों अवधि 25 फरवरी, 1982 तक जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ाती है ।

[फा. सं. 5(14)/78-सी. यू. सी.]

आर. एन. चोपड़ा, अपर सचिव

S.O. 127 (E)|18FB|IDRA|81.—Whereas by two Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 124(E)|18FB|IDRA|79, dated the 5th March, 1979, No. S.O. 130(E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Orders) the Central Government, in exercise of the powers, conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operations of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing order or other instruments, in force immediately before the dates of the issue of the said orders, to which the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was a party or which might be applicable to the said industrial undertaking, should remain suspended for a period upto the 25th August, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date should remain suspended for a period up to and inclusive of 25th August, 1979;

And whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E)|18FB|IDRA|79, dated the 22nd August, 1979 and No. S.O. 638(E)|18FB|IDRA|80, dated the 23rd August, 1980, the duration of the said Orders was extended for a further period up to and inclusive of the 25th February, 1981;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said orders should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 25th February, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said orders, up to and inclusive of the 25th February, 1982.

[F. No. 5(14)|78-CUS]

R. N. CHOPRA, Additional Secy.